


भारत का राजपत्र
'The Gazette of India'

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1972/खण्ड 3, 1894

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 1972/JYAISTHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May 1972

S.O. 374(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Ninety-fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st June, 1972.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", entry 12 shall be omitted; and

(2) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", after entry 124, the following shall be inserted, namely:—

"Part IV—MISCELLANEOUS BUSINESS

124A. Matters relating to the State of Nagaland."

V. V. GIRI, President.

[No. 74/2/1/72-CE.]

J. S. MONGIA, Jt. Sec.

(1001)

